

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन म्युनिसिपल चुनाव के उम्मीदवारों के लिए सूचना सेशन आयोजित करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (31 मार्च, 2022) – 2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव (Municipal and School Board Election) के भावी उम्मीदवारों और तृतीय पक्ष विज्ञापकों को, मंगलवार, 12 अप्रैल, 2022 को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, जानकारी सेशन में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग (Ministry of Municipal Affairs and Housing) के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाने वाला सूचना सेशन, ब्रैम्पटन सिटी हॉल (Brampton City Hall) में काउंसिल चैम्बर्स (Council Chambers) में होने वाली हाईब्रिड व्यक्तिगत और वर्चुअल (आभासी) मीटिंग है।

यह सेशन, महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में एक सार प्रदान करेगा, जिनमें शामिल है:

- उम्मीदवार और तृतीय पक्ष विज्ञापकों की योग्यता और जिम्मेदारियां
- नामांकन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- अभियान फाइनैस
- महत्वपूर्ण तारीखें और संसाधन

सेशन किसी भी उस व्यक्ति के लिए खुला है, जो ब्रैम्पटन 2022 म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में, उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने या तृतीय पक्ष विज्ञापक के तौर पर रजिस्टर करने के बारे में सोच रहा है। जानकारी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वेबेक्स (Webex) के द्वारा व्यक्तिगत या वर्चुअली शामिल होने के लिए रजिस्टर करने के लिए, brampton.ca/bramptonvotes पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- उम्मीदवार या तृतीय पक्ष विज्ञापक बनने के बारे में जानकारी, [यहां प्राप्त \(found here\)](#) की जा सकती है
- उम्मीदवार नामांकन की अवधि, 2 मई को शुरू होकर, 19 अगस्त को, दोपहर बाद 2 बजे तक है
- तृतीय पक्ष विज्ञापक के लिए रजिस्ट्रेशन, 2 मई को शुरू होकर 21 अक्टूबर तक होगी
- वोटिंग डे (Voting Day), 24 अक्टूबर को है
- नामांकित उम्मीदवारों और रजिस्टर्ड तीसरे पक्षों के लिए अगला सूचना सेशन, सितम्बर 2022 में होगा

हवाला

" मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सिटी का सूचना सेशन, भावी उम्मीदवारों को इस बारे में बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करेगा कि यदि वे 2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने का चयन करते हैं तो उनके लिए क्या शर्तें हैं और रजिस्ट्रेशन शर्तों के बारे में जानने में भावी तृतीय पक्ष विज्ञापकों की मदद करेगा। हम, किसी भी उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, जो रजिस्टर करने के बारे में जानना और हमसे जुड़ना चाहता है। "

- पीटर फे (Peter Fay), 2022 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए सिटी क्लर्क और रिटर्निंग अफसर

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca